

SET-3

Series HFG1E/1



प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code

56/1/3

रोल नं.

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक) **CHEMISTRY (Theory)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 70

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **19** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **35** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **19** printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **35** questions.
- **Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

*



सामान्य निर्देशः

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 35 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 19 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 30 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 31 तथा 32 केस-आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 33 से 35 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

खण्ड क

प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।

$$18 \times 1 = 18$$

1. कक्ष ताप पर अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर बना विलयन छूने पर ठंडा अनुभव होता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लवण अधिक तीव्रता से घुलेगा ?
 - (a) ठंडे जल में चूर्णित लवण
 - (b) गर्म जल में चूर्णित लवण
 - (c) ठंडे जल में लवण के क्रिस्टल
 - (d) गर्म जल में लवण के क्रिस्टल
2. लैन्थेनॉयड आकुंचन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के कारण होता है ?
 - (a) परमाणु संख्या
 - (b) 4f इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण
 - (c) प्रभावी नाभिकीय आवेश
 - (d) परमाणु त्रिज्या



General Instructions :

Read the following instructions carefully and strictly follow them :

- (i) *This question paper contains **35** questions. All questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.*
- (iii) *In **Section A** – Questions no. **1** to **18** are multiple choice (MCQ) type questions, carrying **1** mark each.*
- (iv) *In **Section B** – Questions no. **19** to **25** very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*
- (v) *In **Section C** – Questions no. **26** to **30** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*
- (vi) *In **Section D** – Questions no. **31** and **32** are case-based questions carrying **4** marks each.*
- (vii) *In **Section E** – Questions no. **33** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*
- (viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.*
- (ix) *Use of calculators is **not** allowed.*

SECTION A

*Questions no. **1** to **18** are Multiple Choice (MCQ) type Questions, carrying **1** mark each.* **18×1=18**

1. On dissolving ammonium chloride in water at room temperature, the solution feels cool to touch. Under which of the following conditions does salt dissolve faster ?
 - (a) Powdered salt in cold water
 - (b) Powdered salt in hot water
 - (c) Salt crystals in cold water
 - (d) Salt crystals in hot water
2. Lanthanoid contraction is due to increase in :
 - (a) atomic number
 - (b) shielding by 4f electrons
 - (c) effective nuclear charge
 - (d) atomic radius



3. ऐल्कोहॉली माध्यम में NaOH और Br_2 के साथ CH_3CONH_2 अभिक्रिया करके देता है :

 - (a) CH_3COONa
 - (b) CH_3NH_2
 - (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$
 - (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$


4. अभिक्रिया $\text{R} - \text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{ZnCl}_2} \text{RCl} + \text{H}_2\text{O}$ में ऐल्कोहॉल की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है ?

 - (a) $1^\circ < 2^\circ < 3^\circ$
 - (b) $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ$
 - (c) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
 - (d) $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$

5. यौगिक $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ और $[\text{Co}(\text{Br})(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ निरूपित करते हैं :

 - (a) ध्रुवण समावयवता
 - (b) बंधनी समावयवता
 - (c) आयनन समावयवता
 - (d) उपसहसंयोजन समावयवता

6. निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे कम क्षारकीय है ?

 - (a) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$
 - (b) NH_3
 - (c) 
 - (d) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$


7. स्टार्च के ऐमिलेस घटक में ग्लूकोस इकाइयों को जोड़ने के लिए सम्मिलित ग्लाइकोसाइडी बंध है :

 - (a) $\text{C}_1 - \text{C}_6$ α बंध
 - (b) $\text{C}_1 - \text{C}_6$ β बंध
 - (c) $\text{C}_1 - \text{C}_4$ α बंध
 - (d) $\text{C}_1 - \text{C}_4$ β बंध

8. $\text{H}_2(g) + \text{Cl}_2(g) \xrightarrow{h\nu} 2\text{HCl}(g)$ के लिए अभिक्रिया कोटि है :


 - (a) 2
 - (b) 1
 - (c) 0
 - (d) 3


9. निम्नलिखित में बेंजीन पर आक्रमण करने वाली स्पीशीज है :



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) Cl^- | (b) AlCl_4^- |
| (c) AlCl_3 | (d) Cl^+ |



3. CH_3CONH_2 on reaction with NaOH and Br_2 in alcoholic medium gives :
- (a) CH_3COONa
 - (b) CH_3NH_2
 - (c) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$
 - (d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$
4. In the reaction $\text{R} - \text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{ZnCl}_2} \text{RCl} + \text{H}_2\text{O}$, what is the correct order of reactivity of alcohol ?
- (a) $1^\circ < 2^\circ < 3^\circ$
 - (b) $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ$
 - (c) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
 - (d) $3^\circ > 1^\circ > 2^\circ$
5. The compounds $[\text{Co}(\text{SO}_4)(\text{NH}_3)_5]\text{Br}$ and $[\text{Co}(\text{Br})(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$ represent :
- (a) optical isomerism
 - (b) linkage isomerism
 - (c) ionisation isomerism
 - (d) coordination isomerism
6. Which of the following is least basic ?
- (a) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$
 - (b) NH_3
 - (c)  (d) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$
7. The glycosidic linkage involved in linking the glucose units in amylose part of starch is :
- (a) $\text{C}_1 - \text{C}_6 \alpha$ linkage
 - (b) $\text{C}_1 - \text{C}_6 \beta$ linkage
 - (c) $\text{C}_1 - \text{C}_4 \alpha$ linkage
 - (d) $\text{C}_1 - \text{C}_4 \beta$ linkage
8. The order of the reaction
- $$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{h}\nu} 2\text{HCl}(\text{g}) \text{ is :}$$
- (a) 2
 - (b) 1
 - (c) 0
 - (d) 3
9. The species that attacks benzene in following is :




- (a) Cl^-
- (b) AlCl_4^-
- (c) AlCl_3
- (d) Cl^+



10. लैथेनॉइड की सर्वाधिक सामान्य और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है :

- | | |
|---------|---------|
| (a) + 2 | (b) + 3 |
| (c) + 4 | (d) + 6 |

11. निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सही सेल निरूपण है :



- | |
|---|
| (a) $2\text{Ag} \mid \text{Ag}^+ \parallel \text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}$ |
| (b) $\text{Ag}^+ \mid \text{Ag} \parallel \text{Zn}^{2+} \mid \text{Zn}$ |
| (c) $\text{Ag} \mid \text{Ag}^+ \parallel \text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+}$ |
| (d) $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag}$ |

12. एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए ΔG और $E_{\text{सेल}}^\circ$ होंगे :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) धनात्मक, ऋणात्मक | (b) ऋणात्मक, ऋणात्मक |
| (c) ऋणात्मक, धनात्मक | (d) धनात्मक, धनात्मक |

13. निम्नलिखित में से कौन-सा उत्प्रेरक से प्रभावित होता है ?

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) ΔH | (b) ΔG |
| (c) E_a | (d) ΔS |

14. निम्नलिखित में से कौन-सी अनपचयी शर्करा है ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) सूक्रोस | (b) माल्टोस |
| (c) ग्लूकोस | (d) लैक्टोस |

प्रश्न संख्या 15 से 18 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (d) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।



For Questions number 15 to 18, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
 - (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
 - (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
 - (d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

- 15.** अभिकथन (A) : शुद्ध प्राथमिक ऐमीनों के विरचन के लिए ऐल्किल हैलाइडों का ऐमोनी-अपघटन एक उपयुक्त विधि नहीं है।
कारण (R) : ऐल्किल हैलाइडों के ऐमोनी-अपघटन से मुख्यतः द्वितीयक ऐमीन प्राप्त होते हैं।
- 16.** अभिकथन (A) : अभिक्रिया $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$ में आण्विकता 2 प्रतीत होती है।
कारण (R) : दी हुई प्राथमिक अभिक्रिया में अभिकारकों के दो अणु भाग लेते हैं।
- 17.** अभिकथन (A) : निम्न प्रचक्रण चतुष्फलकीय संकुल विरले ही देखे जाते हैं।
कारण (R) : चतुष्फलकीय संकुलों के लिए युग्मन ऊर्जा की तुलना में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम होती है।
- 18.** अभिकथन (A) : ऐनिलीन के ऐसीटिलन से एकल प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है।
कारण (R) : $-NHCOCH_3$ समूह का सक्रियण प्रभाव ऐमीनो समूह से अधिक होता है।

खण्ड ख

- 19.** (क) एक रासायनिक समीकरण लिखिए, यह दर्शाने के लिए कि D-ग्लूकोस की विवृत संरचना में ऋजु शृंखला होती है।
(ख) प्रोटीन के निर्माण के लिए किस प्रकार का बंध उत्तरदायी होता है ? 2
- 20.** (क) $25^\circ C$ पर सेल अभिक्रिया के लिए $\Delta_r G^\circ$ परिकलित कीजिए : 2



$$\text{दिया गया है : } E_{Zn^{2+}/Zn}^\circ = -0.76 \text{ V}, \quad E_{Cd^{2+}/Cd}^\circ = 0.40 \text{ V}$$

$$1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

अथवा

- (ख) 0.05 mol L^{-1} NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध $5.55 \times 10^3 \text{ ohm}$ है। इसका व्यास 1 cm एवं लम्बाई 50 cm है। इसकी चालकता का परिकलन कीजिए। 2
- 21.** (क) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए : $1+1=2$

- (i) ऐल्कोहॉल की तुलना में फ़ीनॉल अधिक प्रबल अम्ल होता है।
(ii) ऐल्कोहॉलों के क्वथनांक ऐल्किल शृंखला में शृंखलन बढ़ने के साथ घटते हैं।


अथवा



-
- 15.** Assertion (A) : Ammonolysis of alkyl halides is not a suitable method for the preparation of pure primary amines.
Reason (R) : Ammonolysis of alkyl halides yields mainly secondary amines.
- 16.** Assertion (A) : The molecularity of the reaction $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$ appears to be 2.
Reason (R) : Two molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction.
- 17.** Assertion (A) : Low spin tetrahedral complexes are rarely observed.
Reason (R) : Crystal field splitting energy is less than pairing energy for tetrahedral complexes.
- 18.** Assertion (A) : Acetylation of aniline gives a monosubstituted product.
Reason (R) : Activating effect of $-NHCOCH_3$ group is more than that of amino group.

SECTION B

- 19.** (a) Write chemical reaction to show that open structure of D-glucose contains the straight chain.
(b) What type of linkage is responsible for the formation of protein ? 2
- 20.** (a) Calculate $\Delta_r G^\circ$ for the cell reaction at $25^\circ C$: 2



Given that : $E_{Zn^{2+}/Zn}^\circ = -0.76 V$, $E_{Cd^{2+}/Cd}^\circ = 0.40 V$

$$1 F = 96500 C mol^{-1}$$


OR

- (b) The electrical resistance of a column of 0.05 mol L^{-1} NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55×10^3 ohm. Calculate the conductivity. 2
- 21.** (a) Account for the following : $1+1=2$
(i) Phenol is a stronger acid than an alcohol.
(ii) The boiling point of alcohols decreases with increase in branching of alkyl chain.

OR



(ख) (i) निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए :



(ii) राइमर-टीमन अभिक्रिया में सम्मिलित समीकरण लिखिए ।

1+1=2

22. मुख्य उत्पाद लिखिए जब :


2×1=2

(क) n-ब्यूटिल क्लोराइड को ऐल्कोहॉली KOH के साथ अभिक्रियित किया जाता है ।

(ख) 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंज़ीन का जल-अपघटन होता है ।


23. निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए :

1+1=2




24. (क) निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का आई.यू.पी.ए.सी. नाम लिखिए :

2×1=2



(ख) निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए :



25. हेनरी नियम क्या है ? इसका एक अनुप्रयोग दीजिए ।

2

खण्ड ग

26. निर्मित मुख्य उत्पाद लिखिए जब :

3×1=3


(क) मेथिल क्लोराइड को NaI/ऐसीटोन के साथ अभिक्रियित किया जाता है ।

(ख) 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंज़ीन का जल-अपघटन किया जाता है ।

(ग) n-ब्यूटिल क्लोराइड को ऐल्कोहॉली KOH के साथ अभिक्रियित किया जाता है ।



(b) (i) Write the mechanism of the following reaction :




(ii) Write the equation involved in Reimer-Tiemann reaction. $1+1=2$

22. Write the main product formed when : $2 \times 1 = 2$


(a) n-Butyl chloride is treated with alc. KOH.

(b) 2,4,6-Trinitrochlorobenzene is subjected to hydrolysis.


23. Complete the following equations : $1+1=2$



24. (a) Write the IUPAC name for the following organic compounds : $2 \times 1 = 2$



(b) Complete the following :



25. What is Henry's law ? Give one application of it. 2

SECTION C

26. Write main product formed when : $3 \times 1 = 3$

(a) Methyl chloride is treated with NaI/Acetone.

(b) 2,4,6-trinitrochlorobenzene is subjected to hydrolysis.

(c) n-Butyl chloride is treated with alcoholic KOH.



27. आप निम्नलिखित रूपान्तरण कैसे सम्पन्न करेंगे : (कोई तीन) $3 \times 1 = 3$
- (क) फ़ीनॉल से पिक्रिक अम्ल
(ख) प्रोपेनोन से 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऑल
(ग) फ़ीनॉल से एनिसोल
(घ) प्रोपीन से प्रोपेन-1-ऑल
28. (क) आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के मध्य अंतर लिखिए ।
(ख) 846 g जल में 30 g यूरिया घोला गया है । यदि 298 K पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mm Hg है, तो इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए । 3
29. (क) व्याख्या कीजिए क्यों : $3 \times 1 = 3$
- (i) बेन्जोइक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह मेटा निर्देशक होता है ।
(ii) ऐल्डिहाइडों और कीटोनों के परिष्करण के लिए सोडियम बाइसल्फाइट प्रयुक्त किया जाता है ।
(iii) कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल समूह की अभिलक्षणिक अभिक्रियाएँ नहीं देते हैं ।
- अथवा**
- (ख) निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए : $3 \times 1 = 3$
- (i) प्रोपेनोन को तनु $\text{Ba}(\text{OH})_2$ के साथ अभिक्रियित किया जाता है ।
(ii) ऐसीटोफ़ीनोन को $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{सांद्र HCl}$ के साथ अभिक्रियित किया जाता है ।
(iii) Pd-BaSO_4 की उपस्थिति में बेंज़ोयल क्लोराइड का हाइड्रोजनन किया जाता है ।
30. (क) उत्पाद का नाम लिखिए जब D-ग्लूकोस, सांद्र HNO_3 के साथ अभिक्रिया करता है ।
(ख) ऐमीनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं । क्यों ?
(ग) प्रोटीन की α -हेलिक्स और β -प्लीटेड संरचना के मध्य एक अंतर लिखिए । $3 \times 1 = 3$



-
27. How do you convert the following : (Any ***three***) **$3 \times 1 = 3$**
- (a) Phenol to picric acid
 - (b) Propanone to 2-Methylpropan-2-ol
 - (c) Phenol to anisole
 - (d) Propene to Propan-1-ol
28. (a) Differentiate between Ideal solution and Non-ideal solution.
- (b) 30 g of urea is dissolved in 846 g of water. Calculate the vapour pressure of water for this solution if vapour pressure of pure water at 298 K is 23.8 mm Hg. 3
29. (a) Explain why : **$3 \times 1 = 3$**
- (i) Carboxyl group in benzoic acid is meta directing.
 - (ii) Sodium bisulphite is used for the purification of aldehydes and ketones.
 - (iii) Carboxylic acids do not give characteristic reactions of carbonyl group.
- OR**
- (b) Give chemical equation for the following reactions : **$3 \times 1 = 3$**
- (i) Propanone is treated with dil. $\text{Ba}(\text{OH})_2$.
 - (ii) Acetophenone is treated with $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{Conc. HCl}$.
 - (iii) Benzoyl chloride is hydrogenated in presence of Pd-BaSO_4 .
30. (a) Write the product when D-glucose reacts with conc. HNO_3 .
- (b) Amino acids show amphoteric behaviour. Why ?
- (c) Write one difference between α -helix and β -pleated structure of protein. **$3 \times 1 = 3$**



खण्ड घ

मिन्मलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं। केस को सावधानीपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

31. अभिक्रिया वेग, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता घटने अथवा उत्पादों की सांद्रता वृद्धि से संबंधित होता है। इसे किसी क्षण विशेष पर तात्क्षणिक वेग के रूप में और किसी दीर्घ समय अंतराल में औसत वेग से प्रदर्शित किया जा सकता है। अभिक्रिया वेग के गणितीय निरूपण को वेग नियम कहते हैं। वेग स्थिरांक एवं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग नियम अथवा समाकलित वेग समीकरण द्वारा कर सकते हैं।

- (i) औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है ? 1
- (ii) दो कारक लिखिए जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। 1
- (iii) (1) शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग को क्या होता है ?
(2) शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई क्या है ? $2 \times 1 = 2$

अथवा

- (iii) (1) एक अभिक्रिया $P + 2Q \longrightarrow$ उत्पाद के लिए वेग $= k[P]^{1/2} [Q]^1$ है। अभिक्रिया की कोटि क्या है ?
(2) एक उदाहरण सहित छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। $2 \times 1 = 2$

32. उपसहसंयोजन यौगिकों में धातुएँ दो प्रकार की संयोजकताएँ, प्राथमिक और द्वितीयक, प्रदर्शित करती हैं। प्राथमिक संयोजकताएँ आयननीय होती हैं तथा ऋणात्मक आवेशित आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएँ अन-आयननीय होती हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएँ अदिशिक होती हैं जबकि द्वितीयक संयोजकताएँ संकुल की आकृति निर्धारित करती हैं।

- (i) यदि $\text{PtCl}_2 \cdot 2\text{NH}_3, \text{AgNO}_3$ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका सूत्र क्या होगा ? 1



SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow.

31. The rate of reaction is concerned with decrease in concentration of reactants or increase in the concentration of products per unit time. It can be expressed as instantaneous rate at a particular instant of time and average rate over a large interval of time. Mathematical representation of rate of reaction is given by rate law. Rate Constant and order of a reaction can be determined from rate law or its integrated rate equation.

- (i) What is average rate of reaction ? 1
(ii) Write two factors that affect the rate of reaction. 1
(iii) (1) What happens to rate of reaction for zero order reaction ?
(2) What is the unit of k for zero order reaction ? $2 \times 1 = 2$

OR

- (iii) (1) For a reaction $P + 2Q \longrightarrow$ Products
Rate = $k[P]^{1/2} [Q]^1$. What is the order of the reaction ?
(2) Define pseudo first order reaction with an example. $2 \times 1 = 2$

32. In coordination compounds, metals show two types of linkages, primary and secondary. Primary valencies are ionisable and are satisfied by negatively charged ions. Secondary valencies are non-ionisable and are satisfied by neutral or negative ions having lone pair of electrons. Primary valencies are non-directional while secondary valencies decide the shape of the complexes.

- (i) If $\text{PtCl}_2 \cdot 2\text{NH}_3$ does not react with AgNO_3 , what will be its formula ? 1



(ii) $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ की द्वितीयक संयोजकता क्या है ?

1

(iii) (1) आयरन(III)हैक्सासायनिडोफेरेट(II) का सूत्र लिखिए ।

(2) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{ Cl}_2$ का आई.यू.पी.ए.सी. नाम लिखिए ।

$2 \times 1 = 2$

अथवा

(iii) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ का संकरण एवं चुम्बकीय व्यवहार लिखिए ।

2

[परमाणु संख्या : Ni = 28]

खण्ड ड

33. (क) (i) निम्नलिखित रूपान्तरणों को सम्पन्न कीजिए :

(1) एथेनैल से ब्यूट-2-इन-1-अल

(2) प्रोपेनॉइक अम्ल से 2-क्लोरोप्रोपेनॉइक अम्ल

(ii) C_5H_{10} अणुसूत्र वाला एक ऐल्कीन ओज़ोनी-अपघटन से दो यौगिकों 'B' और 'C' का मिश्रण देता है । यौगिक 'B' धनात्मक फेलिंग परीक्षण देता है और I_2 तथा NaOH विलयन के साथ भी अभिक्रिया करता है । यौगिक 'C' फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता लेकिन आयोडोफॉर्म निर्मित करता है । यौगिक 'A', 'B' और 'C' को पहचानिए ।

$2+3=5$

अथवा

(ख) (i) उपयुक्त रासायनिक परीक्षण से विभेद कीजिए :


(1) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$ और $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

(2) एथेनैल और एथेनॉइक अम्ल

(ii) ऐसीटोन के ऑक्सिम की संरचना लिखिए ।

(iii) A से D को पहचानिए ।

$2+1+2=5$



(ii) What is the secondary valency of $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$?

1

(iii) (1) Write the formula of Iron(III)hexacyanidoferate(II).

(2) Write the IUPAC name of $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{Cl}_2$.

$2 \times 1 = 2$

OR

(iii) Write the hybridization and magnetic behaviour of $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$.
[Atomic number : Ni = 28]

SECTION E

33. (a) (i) Carry out the following conversions :

(1) Ethanal to But-2-en-1-al

(2) Propanoic acid to 2-chloropropanoic acid

(ii) An alkene with molecular formula C_5H_{10} on ozonolysis gives a mixture of two compounds 'B' and 'C'. Compound 'B' gives positive Fehling test and also reacts with iodine and NaOH solution. Compound 'C' does not give Fehling solution test but forms iodoform. Identify the compounds 'A', 'B' and 'C'. $2+3=5$

OR

(b) (i) Distinguish with a suitable chemical test :


(1) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$ and $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

(2) Ethanal and Ethanoic acid

(ii) Write the structure of oxime of acetone.

(iii) Identify A to D.

$2+1+2=5$



34. (क) (i) 3d श्रेणी में किस संक्रमण तत्व का धनात्मक $E_{M^{2+}/M}^\circ$ मान होता है और क्यों ?

(ii) लैन्थेनॉयड श्रेणी के एक सदस्य का नाम लिखिए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दशनि के लिए भली-भाँति जाना जाता है ।

(ख) कारण दीजिए :


(i) संक्रमण धातुओं के ऑक्सोऋणायनों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है ।

(ii) $KMnO_4$ विलयन को अम्लीकृत करने के लिए HCl प्रयुक्त नहीं किया जाता है ।

3+2=5

35. (क) (i) आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराऊश नियम लिखिए । कोलराऊश नियम के अनुसार ऐसीटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता के लिए व्यंजक लिखिए ।

(ii) 298 K पर दी गई अभिक्रिया के लिए अधिकतम कार्य और $\log K_c$ परिकलित कीजिए :



दिया गया है : $E_{Ni^{2+}/Ni}^\circ = -0.25 V$, $E_{Ag^+/Ag}^\circ = +0.80 V$

$$1 F = 96500 C mol^{-1}$$

2+3=5

अथवा

(ख) (i) फैराडे के विद्युत-अपघटन का प्रथम नियम लिखिए । 1 मोल Cu^{2+} को Cu में अपचयित करने के लिए फैराडे के पदों में कितना आवेश आवश्यक होगा ?

(ii) 298 K पर निम्नलिखित सेल का विद्युत-वाहक बल (emf) परिकलित कीजिए :



$$[E_{\text{सेल}}^\circ = +2.71 V, 1 F = 96500 C mol^{-1}, \log 10 = 1]$$

2+3=5



-
- 34.** (a) (i) In 3d series, which transition element has positive $E_{M^{2+}/M}^\circ$ value and why ?
- (ii) Name a member of lanthanide series which is well-known to show +4 oxidation state.
- (b) Give reason :
- (i) The highest oxidation state is exhibited in oxoanions of transition metals.
- (ii) HCl is not used to acidify $KMnO_4$ solution. $3+2=5$
- 35.** (a) (i) State Kohlrausch's law of independent migration of ions. Write an expression for the limiting molar conductivity of acetic acid according to Kohlrausch's law.
- (ii) Calculate the maximum work and $\log K_c$ for the given reaction at 298 K :
- $$Ni(s) + 2Ag^+(aq) \rightleftharpoons Ni^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$
- Given : $E_{Ni^{2+}/Ni}^\circ = -0.25\text{ V}$, $E_{Ag^+/Ag}^\circ = +0.80\text{ V}$
 $1\text{ F} = 96500\text{ C mol}^{-1}$ $2+3=5$
- OR**
- (b) (i) State Faraday's first law of electrolysis. How much charge, in terms of Faraday, is required for the reduction of 1 mol Cu^{2+} to Cu ?
- (ii) Calculate emf of the following cell at 298 K for
 $Mg(s) | Mg^{2+}(0.1\text{ M}) || Cu^{2+}(0.01\text{ M}) | Cu(s)$
[$E_{cell}^\circ = +2.71\text{ V}$, $1\text{ F} = 96500\text{ C mol}^{-1}$, $\log 10 = 1$] $2+3=5$

